



सत्यमेव जयते



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग—II खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART—II Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 1979/कार्तिक 23, 1901

No. 471]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 1979/KARTIKA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

अनुसूची

(औद्योगिक विकास विभाग)

कम्पनी अधिनियम
1956 के उपबन्ध

वे अपवाद, निर्बंधन और परिसीमाएं जिनके रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे।

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1979

1

2

धारा 186

इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे। किन्तु वह अपनी कानूनी विवरणियों और तुलनपत्र कंपनियों के रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करेगा। यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगा।

धारा 169

इस धारा का उपबन्ध, उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।

धारा 210 (1)

इस उपधारा का उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा। किन्तु अपनी कानूनी विवरणियों और तुलनपत्र कंपनियों के रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करेगा। यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।

का० प्रा० 726 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 590 (अ) तारीख 9 अक्तूबर, 1978 द्वारा प्रबन्ध बोर्ड को, मैमर्स राय बहादुर दुर्रतुराय मोतीलाल जूट मिक्स प्राइवेट लिमिटेड कटिहार, बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः अधः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उससे उपाखण्ड अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बंधनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिसके अधीन रहते हुए, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को, उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18क के अधीन आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

1	2
धारा 217	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।
धारा 224	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा किन्तु शर्त यह है कि लेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
धारा 225	वही
धारा 293	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।
धारा 294	वही

सभी मामलों में छूट की प्रवधि उस समय समाप्त हो जाएगी जब इस कंपनी का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन नहीं रह जाएगा।

[फा० सं० 3/4/76-सी० यू० सी०]

ध० राय, संयुक्त सचिव

Ministry of Industry

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th November, 1979

S. O. 726 (E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 590(E), dated the 9th October, 1978 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised a Board of Management to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs Rai Bahadur Hurdutroy Motilal Jute Mills Private Limited, Katihar Bihar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under Section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956,	Exceptions, restrictions and limitations to which the provisions mentioned in column(1) shall apply to the undertaking.
(1)	(2)
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the companies Act, 1956.
Section 169	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210 (1)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 224	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	—do—
Section 293	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

The period of exemption in all cases will terminate when the Company ceases to be managed by the Central Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[R. No. 3/4/76—CUC]

B. ROY, Joint Secy